

अनुदान योजना

हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वित्त वर्ष

आवेदन-पत्र (भाग - 1)

प्रेषक :

सेवा में,

विषय :- स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान ।

महोदय,

मैं इसके साथ "स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को सहायता" योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन-पत्र की दो प्रतियाँ भेज रहा हूँ/ रही हूँ, जो संलग्न हैं । मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने इस योजना के अंतर्गत नियमावली और विनियमों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा / करूँगी । इसके अतिरिक्त प्रबंधकर्ता सभा की और से मैं, नीचे दी गई शर्तों को भी स्वीकार करता हूँ / करती हूँ।

(क) सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से बनाई गई सारी परिसंपत्तियाँ भारत सरकार की पूर्व सहमति के बिना किसी व्यक्ति / संस्था को हस्तांतरित नहीं की जाएँगी । यदि किसी समय संगठन / संस्था बंद हो जाए, तो केंद्रीय अनुदान से बनाई गई संपत्ति को व उससे खरीदा गया सामान भारत सरकार को वापस हो जाएगा ।

(ख) संस्था के लेखे उचित रूप से रखे जाएँगे और भारत सरकार या राज्य

सरकार द्वारा भेजा गया कोई भी अधिकारी उसकी जाँच-पड़ताल कर सकेगा ।

(ग) यदि राज्य या केंद्रीय सरकार को इस बात पर विश्वास हो जाए कि संस्था का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है या स्वीकृत धन का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के अंतर्गत नहीं किया गया, तो केंद्रीय सरकार अनुदान की अगली किस्तों की अदायगी रोक सकती है और प्रबंधक सभा को सरकार द्वारा निश्चित की गई रकम लौटानी पड़ेगी ।

(घ) संस्था अपने कार्य और विशेषतया केंद्रीय अनुदान में से भवन बनाने के खर्च में अधिक से अधिक किफायत बरतेगी ।

(ङ) भवन के लिए अनुदान के संबंध में, भवन निर्माण का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में ही पूरा किया जाएगा ।

(च) सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भवन के नक्शों में कोई परिवर्तन नहीं किया

(छ) जाएगा ।

अनुदान का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा ।

(ज) परियोजना / योजना की प्रगति के बारे में, रिपोर्ट नियत समय के बाद लगातार भेजी जाएगी ।

(झ) परियोजना / योजना के पूरे होते ही, खर्च का एक जाँचा हुआ विवरण भेजा जाएगा ।

(ञ) परियोजना / योजना के अनुमानित व्यय का बाकी खर्च संस्था वहन करेगी / या संस्था व्यय का25..... प्रतिशत वहन करेगी और बाकी व्यय राज्य सरकार वहन करेगी / या संस्था कोई व्यय नहीं करेगी और बाकी का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी ।

(जो शर्तें लागू न हों, कृपया उन्हें काट दें)

भवदीय

(हस्ताक्षर)

पद का नाम

.....

कार्यालय की मोहर